

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-92/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत कुंरा, जिला-रायपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. कुरा नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

क्रमांक	वार्ड का नाम
01	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
02	डॉ. खुबचंद बघेल
03	चन्द्रशेखर आजाद
04	शहीद भगत सिंह
05	छत्रपति शिवाजी
06	महात्मा गांधी
07	पं. जवाहरलाल नेहरू
08	डॉ. भीमराव अंबेडकर
09	लाल बहादुर शास्त्री
10	रविन्द्रनाथ टैगोर
11	वीर सावरकर
12	विनोबा भावे
13	सरदार वल्लभ भाई पटेल
14	महाराणा प्रताप
15	रानी लक्ष्मी बाई

कुरा नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक— 01 (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस)

- उत्तर — ओम प्रकाश साहू के घर से बुढ़ा तालाब तक
 पूर्व — बुढ़ा तालाब राजाराम साहू के घर तक
 दक्षिण— राजाराम साहू के घर से सुभाष चौक होते हुये मो. अय्युब खान की लगानी भूमि तक
 पश्चिम— मो. अय्युब खान की लगानीभूमि से पंडरभट्टा रोड होते हुये ओम प्रकाश साहू के घर तक

वार्ड क्रमांक— 02 (डॉ. खुबचंद बघेल)

- उत्तर— बिसौहा साहू के घर से देवसिंग वर्मा के घर तक
 पूर्व— देवसिंग वर्मा के घर से गणेश वर्मा के घर तक
 दक्षिण— गणेश वर्मा के घर से निक्की फैसी स्टोर्स होते हुए गीता देवांगन के घर तक
 पश्चिम— गीतादेवांगनके घर से बिसौहासाहू के घरतक •

वार्ड क्रमांक— 03 (चन्द्रशेखर आजाद)

- उत्तर— राधा बाई के घर से पानी टंकी, सुभाष चौक होते हुये सुखित साहू के घर तक
 पूर्व — सुखित साहू के घर से कुंजी साहू का घर होते हुये भुवन साहू के घर तक
 दक्षिण— भुवन साहू के घर से शर्मा मेडिकल दुकान होते हुये आयुर्वेदिक अस्पताल तक
 पश्चिम— आयुर्वेदिक अस्पताल से सेजा बाई यादव, राधाबाई के घर होते हुये पानी टंकी तक

वार्डक्रमांक— 04 (शहीदभगत सिंह)

- उत्तर— मो. अय्युब खान के घर से हमीद खान का घर होते हुये पटेल सामुदायिक भवन तक
 पूर्व— पटेल सामुदायिक भवन से रूपनू धीवर के घर तक
 दक्षिण— रूपनू धीवर के घर से सतनाम भवन बाउंड्री तक
 पश्चिम— सतनाम भवन बाउंड्री से फिरोज खान का घर, रामकुमार गुप्ता के घर होते हुये मो. अय्युब खान के घर तक

वार्ड क्रमांक— 05 (छत्रपति शिवाजी)

- उत्तर — ग्यारसी लाल अग्रवाल के घर से मेन रोड होते हुए राजू देवांगन के घर
- पूर्व — राजू देवांगन के घर से रमजान खान का घर
- दक्षिण— रमजान खान के घर से संतोष भोंई तथा धनराज देवांगन के घर होते हुये कृष्णा घम्फोरिया के घर से टिकेश्वर साहू के घर तक
- पश्चिम— टिकेश्वर साहू के घर से ग्यारसी अग्रवाल के घर तक

वार्ड क्रमांक— 06 (महात्मा गांधी)

- उत्तर — खादी ग्राम उद्योग से शासकीय प्रा.शाला होते हुये संतोषी मंदिर
- पूर्व— संतोषी मंदिर से केजूराम देवांगन से महेश साहू, खेतहा साहू तथा भूखन घम्फारिया, विश्राम साहू, ललित सिन्हा के घर से होते हुये गौरी साहू के घर तक
- दक्षिण— गौरी बाई साहू घर से किशन देवांगन का दुकान होते हुये साहू समाज भवन तक
- पश्चिम— साहू समाज भवन से चण्डी मंदिर होते हुये महेश पाटकर के घर से तनु इलेक्ट्रानिक दुकान से खादी ग्राम उद्योग तक

वार्ड क्रमांक— 07 (पं. जवाहरलालनेहरू)

- उत्तर— पंचराम साहू के घर से टीकम सिन्हा तथा रमेश भोंई के घर होते हुये उचित राम भतपहरी के घर तक
- पूर्व— उचित राम भतपहरी के घर से अमीरबेग के घर होते हुये सतनाम चौक से गोड़ाही तालाब तक
- दक्षिण— गोड़ाही तालाब से मिर्जामुनिर अहमद के घर तथा नन्दू साहू के घर होते हुये बलराम साहू के घर से भाव सिंग के ब्यारा होते हुये लखन गुर्वेकर के घर तक
- पश्चिम— लखन गुर्वेकर के घर से छोटकू साहू का घर होते हुये पंचराम साहू के घर तक

वार्ड क्रमांक— 08 (डॉ. भीमराव अंबेडकर)

- उत्तर— नरेश पाटकर के घर से भुखऊ साहू के घर तक तथा अशोक देवांगन के घर से प्रकाश देवांगन के घर तक
- पूर्व— प्रकाश देवांगन के घर से पंचराम देवांगन के घर होते हुये सतनाम भवन तक
- दक्षिण— सतनाम भवन से हीरालाल गुर्वेकर के घर तक
- पश्चिम— हीरालाल गुर्वेकर घर से सिन्हा का घर होते हुये संतोष साहू के घर से नरेश पाटकर का घर

वार्ड क्रमांक— 09 (लालबहादुर शास्त्री)

- उत्तर— कुंज बाई देवांगन घर से मुरली देवांगन का घर एवं चर्तुभुजी मंदिर होते हुये रानी सागर तालाब तक
- पूर्व— रानी सागर तालाब से दुखुमहरा के घर तक
- दक्षिण— दुखुमहरा के घर से राजेन्द्र देवांगन के घर, लखन धीवर का घर तथा गैंदराम धीवर का ब्यारा होते हुये साहू डॉक्टर के मेडिकल तक
- पश्चिम— साहू डॉक्टर के मेडिकल से उर्मिला देवांगन का घर होते हुये कुंज बाई देवांगन के घर तक

वार्ड क्रमांक— 10 (रविन्द्रनाथ टैगोर)

- उत्तर— सुधीर दुबे के घर से धन्नु धीवर का घर, अवध सिन्हा का घर होते हुये पंचराम देवांगन के गोदाम तक
- पूर्व— पंचराम देवांगन के गोदाम से दर्सी तालाब तक
- दक्षिण— दर्सी तालाब से राम प्रसाद साहू के खेत, कुवर लाल यादव का घर होते हुये ओमराम देवांगन के घर तक
- पश्चिम— ओमराम देवांगन के घर से सेवक राम साहू के घर से सुधीर दुबे के घर तक

वार्ड क्रमांक— 11 (वीरसावरकर)

- उत्तर — बंशीलाल चौहान के घर से लेकर नहर नाली, कमलेश देवांगन के खेत से होते हुये रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे तक
- पूर्व— रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे से कोल डिपो तक
- दक्षिण— कोल डिपो से रामसागर द्विवेदी का घर होते हुये चुम्पन चौहान के घर से हिन्धाराम साहू के घर तक
- पश्चिम— हिन्धाराम साहू के घर से नहर होते हुये बंशीलाल चौहान के घर तक

वार्ड क्रमांक— 12 (विनोवा भावे)

- उत्तर— हनुमान मंदिर से रामसहाय सिन्हा के घर तक
- पूर्व— रामसहाय सिन्हा घर से दउवा देवांगन के घर, बुनकर सोसायटी होते हुये कुंजी निर्मलकर के घर तक
- दक्षिण— कुंजी निर्मलकर के घर से मंगतू कंडरा के घर तक
- पश्चिम— मंगतू कंडरा से हनुमान मंदिर तक

वार्ड क्रमांक— 13 (सरदार वल्लभ भाई पटेल)

- उत्तर— दुर्गा मंदिर से नायक डॉक्टर का घर होते हुये देवांगन हालर मिल तक
- पूर्व— देवांगन हालर मिल से सिन्हा होटल, सार्वजनिक शौचालय होते हुये सुरेश गायकवाड़ के घर तक
- दक्षिण— सुरेश गायकवाड़ के घर से पुष्प वाटिका, नगर पंचायत कार्यालय भवन होते हुये बसावन तालाब तक
- पश्चिम— बसावन तालाब से मंगल भवन होते हुये दुर्गा मंदिर तक

वार्ड क्रमांक— 14 (महाराणा प्रताप)

- उत्तर— भगवती पाल के घर से रामकूमार साहू के घर होते हुये शासकीय कनिष्ठ प्राथमिक शाला तक
- पूर्व— शासकीय कनिष्ठ प्राथमिक शाला से तीजू राम देवांगन के ब्यारा, सत्यनारायण अग्रवाल के घर होते हुये यशवंत पाल के चाय दुकान तक
- दक्षिण— यशवंतपाल के चाय दुकान से लक्ष्मी दुबे का घर होते हुये बल्लू यादव के घर से
- पश्चिम— बल्लू यादव के घर से भगवती पालके घर तक

वार्ड क्रमांक— 15 (रानीलक्ष्मी बाई)

- उत्तर— फिल्टर प्लॉन्ट से एस.एल.आर.एम. सेंटर में रोड तक
- पूर्व— एस.एल.आर.एम. सेंटर से प्रहलाद धीवर का घर, कन्हैया धीवर का घर होते हुये हीरा लाल गुप्ता का घर
- दक्षिण— हीरा लाल गुप्ता के घर से मोहन प्रजापति का घर होते हुये इतवारी साहू के घर तक
- पश्चिम— इतवारी साहू के घर से अमीर धोबी का घर होते हुये फिल्टर प्लॉन्ट तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक-एफ-1-92/2019/18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-92/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F 1-92/2019/18 In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Kunra, Distt. Raipur as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Kunra in to 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Netaji Subhash Chandra Bose
2	Dr. Khubchand Baghel
3	Chandrashekhar Azad
4	Shahid Bhagat Singh
5	Chhatrapati Shivaji
6	Mahatma Gandhi
7	Pt. Jawaharlal Nehru
8	Dr. Bhimrao Ambedkar
9	Lal Bahadur Shastri
10	Ravidranath Tagore
11	Veer Savarkar
12	Vinowa Bhave
13	Sardar Vallabh Bhai Patel
14	Maharana Pratap
15	Rani Laxmi Bai

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Kunra**Ward No. 01 (Netaji Subhash Chandra Bose Ward)**

- North - From residence of Om Prakash sahu to Budha Talab.
 East - From Budha Talab to residence of Rajaram Sahu.
 South - From residence of Rajaram Sahu to land of Ayyub Khan, via Subhash Chowk.
 West - From land of Ayyub Khan to residence of Om Prakash Sahu, via Pandarbhatta road.

Ward No. 02 (Dr. KhubchandBaghel Ward)

- North - From residence of BisauhaSahu to Residence of Devsingverma.
 East - From Residence of Devsing Verma to Residence of Ganesh verma.
 South- From residence of Ganeshverma to Residence of Geeta dewangan, via Nikky Fancy Stores.
 West - From Residence of Geeta dewangan to Residence of Bisauhasahu.

Ward No. 03 (Chandrashekhar Azad Ward)

- North - From residence of Radha bai to residence of Sukhit Sahu; via WaterTank, Subhash Chowk.
 East - From residence of SukhitSahu to residence of Bhuwan Sahu, via residence of Kunji Sahu.
 South - From residence of Bhuwan Sahu to Ayurvedic Hospital, via Sharma Medical shop.
 West - From Ayurvedic Hospital to water tank via Sejabai Yadav, Radhabai's residence.

Ward No. 04 (Shahid Bhagat Singh Ward)

- North - From residence of Md. Ayyub Khan to Patel Community Building, via residence of Hameed Khan.
 East - From Patel Community Building to residence of Rupnu Dhiwar.
 South - From residence of Rupnu Dhiwar to Boundary of Satnam Bhawan.
 West - From Boundary of Satnam Bhawan to residence of Md. Ayyub Khan, via residence of Firoz Khan, residence of Ramkumar Gupta.

Ward No.05(Chhatrapati Shiva Ji Ward)

- North - From residence of Gyarasi Agrawal to residence of Raju Dewangan, via main road.
- East - From residence of RajuDewangan to residence of Ramzaan Khan.
- South - From residence of Ramzan Khan to residence of Tikeshwar sahu via residence of Santosh Bhoi, residence of Dhanraj Dewangan, residence of KrishnaGhamforia.
- West - From residence of Tikeshwar Sahu to residence of Gyarasi Agrawal.

Ward No. 06 (Mahatma Gandhi Ward)

- North - From KhadiGramodyog to Santoshi Mandir, via Govt. Primary School.
- East - From Santoshi Mandir to residence of Gauri Sahu, via Kejuram Dewangan, Mahesh Sahu, Khetaha Sahu and Bhukhan Ghamforia, Vishram Sahu, Lalit Sinha's residence.
- South - From residence of Gauri bai Sahu to Sahu Community Building, via shop of KishanDewangan.
- West - From Sahu Community Building to Khadi Gramodyog, via Chandi Mandir, residence of Mahesh Patkar, Tanu Electronics Shop.

Ward No.07 (Pt. Jawahar Lal Nehru Ward)

- North - From residence of PanchramSahu to residence of Uchitram Bhatpahari, via Tikam Sinha and Ramesh Bhoi's residence.
- East - From residence of Uchitram Bhatpahari to Godahi Talab, via residence of Amir Beg, Satnam Chowk.
- South - From Godahi Talab to residence of LakhanGurvekar, via residence of Mirza Muneer Ahmed, residence of Nandu Sahu, residence of Balram Sahu, Byara of Bhawsingh.
- West - From residence of LakhanGurvekar to residence of Panchram sahu, via residence of ChhotkuSahu.

Ward No. 08(Dr. Bhimrao Ambedkar Ward)

- North - From residence of Naresh Patkar to residence of Prakash Dewangan, via residence of Bhukhau Sahu, residence of Ashok Dewangan.
- East - From residence of Prakash Dewangan to Satnam Bhawan, via residence of Panchram Dewangan.
- South - From Satnam Bhawan to residence of Hiralal Gurvekar.
- West - From residence of Hiralal Gurvekar to residence of Naresh Patkar, via residence of Sinha, residence of Santosh Sahu.

Ward No. 09(Lal Bahadur Shashtri Ward)

- North - From residence of Kunj bai Dewangan to Ranisagar Talab, via residence of Murli dewangan and Chaturbhuji Mandir.
- East - From Ranisagar Talab to residence of Dhukhu Mahara.
- South - From residence of Dhukhu Mahara to Medical of Dr. Sahu, via residence of Rajendra Dewangan, residence of Lakhan Dhiwar and Byara of Gendram Dhiwar.
- West - From Medical of Dr. Sahu to residence of Kunjbai Dewangan, via residence of Urmila Dewangan.

Ward No.10 (Ravindranath Tagore Ward)

- North - From residence of Sudhir Dubey to Godown of Panchram Dewangan, via residence of Dhannu Dhiwar, residence of Awadh Sinha.
- East - From Godown of Panchram Dewangan to Darri Talab.
- South - From Darri Talab to residence of Omram Dewangan, via Farm of Ram Prashad, residence of Kunwar Lal Yadav.
- West - From residence of Omram Dewangan to residence of Sudhir Dubey, via residence of Sewak Ram Sahu.

Ward No. 11(VeerSawarkar Ward)

- North - From residence of Banshi Lal Chouhan to Raipur-Bilaspur Highway,
via canal, farm of Kamlesh Dewangan.
- East - From Raipur-Bilaspur Highway to Coal Depot.
- South - From Coal Depot to residence of HinchharamSahu, via residence of Ramsagar Dwivedi, residence of Chumman Chouhan.
- West - From residence of HinchharamSahu to residence of Banshi Lal Chouhan via canal.

Ward No.12 (Vinoba Bhawe Ward)

- North - From Hanuman Temple to residence of Ramsahay Sinha.
- East - From residence of Ramsahay Sinha to residence of Kunji Nirmalkar, via residence of Dauwa Dewangan, Bunkar society.
- South - From residence of KunjiNirmalkar to residence of Mangtu Kandara.
- West - From residence of MangtuKandara to Hanuman temple.

Ward No. 13(Sardar Vallabh Bhai Patel Ward)

- North - From Durga temple to Dewangan Haller Mill, via residence of Dr. Nayak.
- East - From Dewangan Haller Mill to residence of Suresh Gayakwad, via Sinha Hotel, Community Toilet.
- South - From residence of Suresh Gayakwad to Basawan Talab, via Pushpwatika, Nagar panchayat Office Building.
- West - From Basawan Talab to Durga temple, via Mangal bhawan.

Ward No. 14(Maharana Pratap Ward)

- North - From residence of Bhagwati pal to Government Kanishth Primary School, via Ram kumarSahu's residence.
- East - From Government Kanishth Primary School to Tea Shop of Yashwant Pal, via Byara of TijuramDewangan, residence of Satyanarayan Agrawal.
- South - From Tea Shop of Yashwant Pal to residence of Ballu Yadav, via residence of Laxmi Dubey.
- West - From residence of Ballu Yadav to residence of Bhagwati Pal.

Ward No. 15(RaniLaxmibai Ward)

- North - From Filter Plant to SLRM center main road.
- East - From SLRM center to residence of Hiralal Gupta, via residence of Prahalad Dhiwar, Kanhaiya Dhiwar's residence.
- South - From residence of Hiralal Gupta to residence of ItwariSahu, via residence of Mohan Prajapati.
- West - From residence of ItwariSahu to Filter Plant, via residence of Amir Dhobi.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.